



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 आश्विन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 784) पटना, मंगलवार, 23 सितम्बर 2014

---

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचनाएं

8 सितम्बर 2014

सं0 3/विविध-1097/13-1133—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' के भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमित हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. **नाम विस्तार एवं प्रारंभ।**— (i) यह नियमावली बिहार राज्य के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय/अंचलीय/प्रमण्डलीय स्तर पर समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफरसिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. सामान्य प्रशासन विभाग का पूर्व से लागू बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नलिखित यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए अंगीकार किया जाता है :—

(क) समूह 'घ' के अधीन निम्नलिखित पद शामिल होंगे :—

- (i) कार्यालय परिचारी;
- (ii) की मैन-कम-चौकिदार;
- (iii) खलासी;
- (iv) प्रयोगशाला परिचर/हेल्पर;

(ख) कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित होगा :—

- (i) विभागीय स्तर पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव;
- (ii) अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंता; तथा

- (iii) प्रमण्डल स्तर पर कार्यपालक अभियंता;  
नियुक्ति प्राधिकार की शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।  
(ग) (i) की मैन-कम-चौकिदार (ii) खलासी (iii) प्रयोगशाला परिचर/हेल्पर का पद प्रमण्डलीय संवर्ग में होने के कारण इनके नियुक्ति प्राधिकार संबंधित कार्यपालक अभियंता होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंशुली आर्या,  
सरकार के प्रधान सचिव।

#### 8 सितम्बर 2014

सं० 3/विविध-1097/13-1133 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अंतर्गत अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंशुली आर्या,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 8th September 2014*

No. 3/विविध-1097/13-1133—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions to the posts of group 'D' at Departmental/Circle/Divisional level of the Public Health Engineering Department under the State :-

**1. Short title, extent & commencement.**— (1) These Rules may be called as Bihar Public Health Engineering Department Group- 'D' at Departmental/ Circle /Divisional level (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2014.

(2) It will extend to the whole State of Bihar. It will apply equally to departmental as well as mufassil offices.

(3) It will come into force with immediate effect.

2. The Bihar Group-D (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2010 (as amended from time to time) enforced earlier, the following *mutatis mutant's* of the General Administration Department, is hereby adopted for the employees of Group 'D' of the Public Health Engineering Department:-

(a) The following posts shall be included under Group 'D':-

- (i) Peon
- (ii) Key-man-cum-Watchman
- (iii) Khalashi
- (iv) Laboratory Attendant/Helper

(b) For recruitment on the posts of Peon, the Appointing Authority shall be the following :-

- (i) Engineer-in-Chief-Cum-Special Secretary at Departmental level,
- (ii) Superintending Engineer at Circle level, and
- (iii) Executive Engineer at Divisional level;

Power of the appointing authority shall not be delegated in any case.

(c) As the posts of (i) Key-man-cum Watchman, (ii) Khalashi, (iii) Laboratory Attendant are in the Divisional cadre, the Executive Engineer shall be their Appointing Authority.

By order of the Governor of Bihar,

ANSHULI ARYA,

*Principal Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 784-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>